



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26, 1983/चैत्र 5, 1905
No. 145] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26, 1983/CHAITRA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्बरक मंत्रालय
कार्यालय विकास आयुक्त (औषधि)

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1983

का. आ. 226(अ) —केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
(1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि
(कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -

- 1 (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम औषधि (कीमत नियंत्रण) (पांचवा)
संशोधन) आदेश, 1983 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

- 2 औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 में—

- (क) प्रथम अनुसूची में, "I प्रवर्ग II विनिर्मितियों में प्रयुक्त प्रयोज्य औषधियाँ" शीर्षक के नीचे क्रम सं. 20 के पश्चात् क्रम सं. 21 (ईथाम्बुटाल) जोड़ी जाएगी।
- (ख) (1) "XVII यक्ष्मारोधी" शीर्षक के नीचे प्रविष्टि सं. 1 अर्थात् "ईथाम्बुटाल" का लोप किया जाएगा और शेष प्रविष्टियों को निम्नलिखित रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, अर्थात् :—
1, 2, 3 और 4।
- (ग) तृतीय अनुसूची में "प्रवर्ग II विनिर्मितियाँ" शीर्षक के नीचे प्रविष्टि सं. 20 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"21. ईथाम्बुटाल निर्मितियाँ।"

[सं. 8(5)/82-वो. II]

इ. एन. मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

[Office of the Development Commissioner (Drugs)]

ORDER

New Delhi, the 26th March, 1983

S.O. 226(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Drugs (Price Control) Order, 1979, namely :—

1. (i) This order may be called the Drugs (Prices Control) (11th Amendment) Order 1983.
- (ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Drugs (Prices Control) Order, 1979—
 - (a) in the first Schedule, under the heading "II bulk drugs used in Category II formulations", after S. No. 20, S. No. 21 (Ethambutol) shall be added.
 - (b) (i) under the heading "VII Anti-tubercular" entry No. 1 namely "Ethambutol" shall be omitted and the remaining entries shall be renumbered i.e. 1, 2, 3 and 4.
 - (c) in the third Schedule, under the heading "Category II formulations", after entry No. 20, the following shall be added, namely :—
"21 Ethambutol preparations".

[No. 8(5)/82-D. II]

E. N. MURTHY, Dy Secy.